

## आगरा में नामचीन कंपनियों के नाम पर नकली मोबिल आयल बाजार में खपाने का प्रयास, तीन गिरफ्तार



Publish Date: Mon, 06 Sep 2021 08:37 AM (IST) Author: **Prateek Gupta**

एत्मादौला पुलिस ने किया नगला देवजीत में चेकिंग के दौरान दबोचा। गाड़ी में भरकर माल भेजने की थी तैयारी मुख्य आरोपित समेत दो वांछित। पहले भी छत्ता थाना क्षेत्र और फाउंड्री नगर में पकड़ा जा चुका है नकली मोबिल ऑयल का कारोबार।

**आगरा, जागरण संवाददाता।** पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते कुछ समय शांत रहने के तेल का खेल फिर से शुरू हो गया है। एत्मादौला के नगला देवजीत में पुलिस ने नामचीन कंपनियों के नाम से नकली मोबाइल आयल बाजार में खपाने की तैयारी करते तीन आरोपितों को दबोच लिया। हालांकि मुख्य अभियुक्त समेत दो आरोपित चकमा देकर भाग निकले। पुलिस ने मौके से नामचीन कंपनियों के स्टिकर व रैपर बरामद किए हैं।

इंस्पेक्टर एत्मादौला देवेन्द्र शंकर पांडेय ने बताया कि नगला देवजीत के पास रेलवे मैदान में गश्त के दौरान पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया। जिनके नाम यासनी उर्फ सोनू निवासी कोतवाली और समीर निवासी शहीद नगर व साहिल हैं। पुलिस ने मौके से 15 पेटी होंडा फोर स्ट्रोक व 27 पेटी खाली, एक हजार कैस्ट्राल के ढक्कन, बजाज टीवीएस कंपनी के स्टिकर 121, बजाज इंजन आयल की एक हजार सील, मुहरें, स्टांप व मैक्स गाड़ी बरामद की है।

आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि वह शारिक और शत्रों के यहां काम करते हैं। नकली मोबिल आयल को नामचीन कंपनियों के डिब्बों में भरकर माल गाड़ी में लाद रहे थे। नकली मोबिल आयल कहीं दूसरे शहर में भेजना था। आरोपितों ने फरार साथियों के नाम सानू उर्फ सन्नो निवासी गली पातीराम छत्ता, शारिक निवासी गुदड़ी मंसूर खां छत्ता हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वांछितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/agra-city-attempt-to-sell-fake-mobil-oil-in-the-name-of-well-known-companies-in-agra-three-arrested-21995234.html>